

भारतीय मानक ब्यूरो
बं. शा. प्रयोगशाला, बंगलूरु

हमारा सन्दर्भ: BNBOL/LRS/OSL-6136726

13 अगस्त 2019

विषय: मै.स्टेपिट लेब्स, बेंगलूरु के मान्यता क्षेत्र में परिवर्तन

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन अनुसार **मै.स्टेपिट लेब्स, #304, 7^{वाँ} मेन, एच आर बी आर लेआउट, प्रथम ब्लॉक, बनस्वाडी, बंगलूरु – 560 043 (कर्नाटक)** के मान्यता क्षेत्र में दिनांक **08 अगस्त 2019** से परिवर्तन किया गया है।

प्रयोगशाला का मान्यता क्षेत्र **अनुबंध 1** में संलग्न है।

ब्युटी कुमारी झा
वै-सी, प्रभा. अधि. (प्र. मा. योजना)

वै. एफ. एवं प्रमुख, बं. शा. प्र.

वै. एफ. एवं प्रमुख, एल पी पी डी

भारतीय मानक ब्यूरो के सभी क्षे. कार्यालय / शा. कार्यालय / प्रयोगशालाएं / सी एम डी - I, II, III

आई टी एस : कृपया इस परिपत्र को भारतीय मानक ब्यूरो के इंटरनेट पर अपलोड करें।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
BNBOL, BANGALORE

Our Ref: BNBOL/LRS/OSL-6136726

13 August 2019

Subject: Modification in Scope of Recognition of M/s Stepit Labs, Bangalore

As approved by the Competent Authority, recognition of **M/s Stepit Labs, #304, 7th Main, HRBR Layout, 1st Block, Banasvadi, Bangalore - 560 043 (Karnataka)** has been modified **w.e.f. 08 August 2019**.

The scope of recognition of the lab is enclosed as **Annexure 1**.

Beauty K Jha
Sc-C, OIC (LRS)

Sc-F & Head, BNBOL

Sc-F & Head, LPPD

All ROs/BOs/Labs/CMD-I/CMD-II/CMD-III

ITS, BIS HQs: Please upload the circular on BIS Intranet.

Annexure 1

Validity of Recognition		From 21/04/2018 to 20/04/2021		
OSL CODE	6136726	CONTACT	Mr. K. Venkatesan, Managing Partner / Quality Manager	
NAME & ADDRESS	M/s Stepit Labs, #304, 7 th Main, HRBR Layout, 1 st Block, Banasvadi, Bangalore - 560 043.	TELEPHONE	9945571110	
		FAX	--	
		E-mail	venkatesan@stepitlabs.com	
		REMARKS	Scope modified on 05/08/2019	
S. No.	IS Number	Product	Testing Charges	Remarks
1	IS 16046:2015	Secondary Cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications	Rs. 58000/- for Lithium system cells; Rs. 48000/- for Lithium system batteries; Rs. 139000/- for Nickel system cells; Rs. 102000/- for Nickel system batteries	IS valid up to 14/03/2020 Transport test (cl.8.3.8) based on manufacturer's documents to demonstrate compliance
2	IS16046 (Part 1): 2018	Secondary Cells and Batteries Containing Alkaline or Other Non-Acid Electrolytes — Safety Requirements for Portable Sealed Secondary Cells and for Batteries Made from Them for Use in Portable Applications (Nickel Systems)	Rs. 85000/- for Nickel systems cells; Rs. 70000/- for Nickel systems batteries	
3	IS16046 (Part 2): 2018	Secondary Cells and Batteries Containing Alkaline or Other Non-Acid Electrolytes — Safety Requirements for Portable Sealed Secondary Cells and for Batteries Made from Them for Use in Portable Applications (Lithium Systems)	Rs. 52000/- for Lithium systems cells; Rs. 59000/- for Lithium systems batteries	
4	IS 16270:2014	Secondary Cells and Batteries for photovoltaic Application – General requirements and methods of Test	Rs. 558000/- for Lead-Acid batteries up to 250 Ah; Rs. 547000/- for VRLA batteries up to 250 Ah; Rs. 840000/- for Nickel System batteries up to 250 Ah	(25% discount for BIS Samples)